



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

12 माघ 1937 (श0)  
(सं0 पटना 99) पटना, सोमवार, 1 फरवरी 2016

---

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना  
2 दिसम्बर 2015

सं0 V/ई1-103/2015-4997—श्री राम सुन्दर प्रसाद, अधीक्षक उत्पाद लखीसराय को उनके अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना में निर्धारित किया जाता है।

3. श्री विकेश कुमार, अधीक्षक उत्पाद, शेखपुरा, अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक अधीक्षक उत्पाद, लखीसराय के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। श्री कुमार को अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, लखीसराय के कर्मियों के वेतनादि एवं अन्य विपत्तों की निकासी हेतु बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 84 के अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती हैं।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
अभय राज,  
सरकार के विशेष सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 99-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>